



PHONE : 011-23272216, 23272217
: 011-23272218, 23276872

Website : <http://www.mgf ltd.com>
E-mail : mgf ltd@hotmail.com
CIN No. : L74899DL1930PLC000208
GSTIN : 07AAACT2356D2ZN

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

M.G.F. HOUSE,

Regd. & H.O. : 4 / 17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110 002

DLI:CS:BSE:NSE:2025

August 13,2025

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited.,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Stock Code: 501343

The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra(E)
Mumbai-400051
Stock Code: Motogenfin

Dear Sir,

Re: Submission of published copy of extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 under IND-AS Rules

In terms of Regulation 47 of SEBI(LODR) Regulations,2015, we are enclosing herewith a scanned copy of extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30,2025 under Ind-AS Rules published in the newspapers viz, "The Financial Express" (English) and " Jansata "(Hindi) both on Tuesday, the August 12,2025.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For THE MOTOR AND GENERAL FINANCE LIMITED

(M.K. MADAN)
VP,CS & COMPLIANCE OFFICER
ENCL: AS ABOVE.

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवल रूपक) एनएसई में सूचीबद्ध निवेशक कंपनी में सूचीबद्ध अंतराज्यीय एंटी-ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली-110020	
ई-निविदा आमंत्रण सूचना	
कोनकोर निम्नलिखित कार्य हेतु एकल पैकेट निविदा प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित करता है:	
निविदा संख्या	CON/AREA-III/ENG6/NMPT/1-89184/2025-26
कार्य का नाम	एनएसई में सूचीबद्ध निवेशक कंपनी के निवेशक
अनुमानित लागत	₹. 660.24 लाख (छियासी सौ लाख)
पूर्णांक अवधि	05 (पांच) महीने
अंदाजा राशि/जमा	₹. 4.80,200.00 (चार लाख असी हजार दो सौ बीस)
निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिभेद)	शून्य
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिभेद)	₹. 3540/- (₹-मूल्य के अभाव में राशि कर और शुल्क सहित)
निविदा बिलों की तिथि (ऑनलाइन)	12.08.2025 (15:00 बजे) से 02.09.2025 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और राशि	03.09.2025 (17:00 बजे तक)
निविदा सुनने की तिथि और समय	05.09.2025 (15:00 बजे)

John Oaky and Mohan Ltd Regd office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091 CIN : L15549DL1962PLC003726 E mail: oakymohan@gmail.com Website: www.oakymohan.in Phone : 0120-2657298	
NOTICE	
Notice is hereby given that pursuant to the circular dated 2nd July, 2025 issued by Securities Exchange Board of India (SEBI), that a Special Window for Re-lodgement of Physical Share Transfer Requests is being announced for a period of 6-months from July 7, 2025 to January 6, 2026 for investors to re-lodge transfer requests of physical shares lodged before April 1, 2019, which were rejected/returned due to document deficiencies. Further: • Transfers will be processed only in demat mode. • Apply through the company/RTA with complete documents. The Comprehensive notice is also available on the website of the company at www.oakymohan.in	
For JOHN OAKY AND MOHAN LIMITED Abhishek Jha Company Secretary and Compliance Officer	

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड सीआईएन : L32202RJ1992PLC017750 पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, 3, आम्नाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर- 302021, राजस्थान, भारत वेबसाइट : www.shyamtelecom.com				
30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के पुनरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹. लाख में, प्रति समता अंश पूंजी अंकड़ा छोड़कर)				
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तदनुकूपी तिमाही	समाप्त वर्ष
		30-06-2025	30-06-2024	31-03-2025
1	कुल आय	3.57	4.14	13.86
2	कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(394.72)	(43.45)	(173.87)
3	कर पूर्व एवं आपवादिक मदों के पश्चात् की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(394.72)	(43.45)	(173.87)
4	कर एवं आपवादिक मदों के पश्चात् की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(394.58)	(43.45)	(183.75)
5	अवधि की कुल व्यापक आय उध्वधि का लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट.	(394.09)	(41.90)	(184.81)
6	समता अंश पूंजी	(1127.00)	(1127.00)	(1127.00)
7	आरक्षित (पुनर्मूल्योक्त आरक्षितियों छोड़कर)	(4,323)	(3786.10)	(3929.01)
8	आय प्रति अंश (ईपीएस) रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य (क) मूलमूल (ख) तरलीकृत	(3.50) (3.50)	(0.37) (0.37)	(1.64) (1.64)

टिप्पणियाँ :
1) दिनोंक 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 11 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया है। उक्त परिणामों को, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पुनरीक्षित किया गया है।
2) उपरोक्त सारांश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम प्रतिक्रान (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालनान्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। इन परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com एवं www.ncsindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.shyamtelecom.com) पर उपलब्ध है।

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड
के निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
अजय खन्ना
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11-08-2025

दि मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड CIN : L74899DL1930PLC000208 पंजीकृत कार्यालय: एमजीएफ हाउस, 4/17बी, आराम अली रोड, नई दिल्ली 110002. ईमेल आईडी: mgfild@hotmail.com, वेबसाइट: http://www.mgfild.com, फोन: 23272216-18							
30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्घरण (₹ लाख में)							
क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30-06-2025 (अनअंकेक्षित)	30-06-2024 (अनअंकेक्षित)	31-03-2025 (अंकेक्षित)	30-06-2025 (अनअंकेक्षित)	30-06-2024 (अनअंकेक्षित)	31-03-2025 (अंकेक्षित)
1	संचालनों से कुल आय	236.33	244.36	992.74	236.33	244.36	992.74
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेशनल और / या असाधारण आइटम से पूर्व)	24.74	32.89	118.55	24.74	32.89	83.33
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व (एक्सेशनल और / या असाधारण आइटम के पश्चात्)	24.74	32.89	118.55	23.01	31.11	79.66
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर के पश्चात् (एक्सेशनल और / या असाधारण आइटम के पश्चात्)	24.74	32.89	118.55	23.01	31.11	79.66
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद)	24.74	32.89	124.60	23.01	31.11	71.82
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36
7	सुरक्षित (पुनर्मूल्योक्त आरक्षितों के अतिरिक्त) जैसे कि पूर्व वर्ष कि बैलेंस शीट में उद्धृत हैं।			3,441.41			3,040.07
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 5/-) (निरंतर और बंद किए गए कार्यों के लिए) (क) बेसिक (₹ में) (ख) डायल्यूटेड (₹ में)	0.06 0.06	0.08 0.08	0.31 0.31	0.06 0.06	0.08 0.08	0.21 0.21

टिप्पणियाँ:-

- उपरोक्त 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकीकृत और समेकित) के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही का पूर्ण प्रारूप, वित्तीय परिणाम और व्याख्यात्मक नोट्स स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.mgfild.com पर उपलब्ध हैं।
- उपरोक्त एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- यह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा प्रथाओं और नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।
- जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(राजीव गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
DIN : 00022964

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अगस्त, 2025

Embassy Developments Limited (Formerly Equinox India Developments Limited and earlier Indiabulls Real Estate Limited)					
Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2025					
Sl. No.	Particulars	₹ in millions			
		3 months ended 30 June 2025	Preceding 3 months ended 31 March 2025	Corresponding 3 months ended 30 June 2024	Previous year ended 31 March 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	6,809.19	8,893.10	4,898.57	21,799.25
2	Net Profit / (Loss) for the year/period (before Tax, Minority Interest and Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,647.58)	1,572.64	(730.06)	563.19
3	Net (Loss) / Profit for the year/period before Tax and Minority Interest (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,647.58)	1,292.64	(730.06)	273.19
4	Net (Loss) / Profit for the year/period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,656.00)	1,230.41	1,252.34	2,029.32
5	Total Comprehensive Income for the year/period [Comprising Profit / (Loss) for the year/period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,656.43)	1,410.24	3,051.26	2,111.69
6	Earnings per Share (Face value of ₹ 2/- each)				
	- Basic (Amount in ₹)	(1.29)	1.06	1.93	1.69
	- Diluted (Amount in ₹)	(1.29)	0.90	1.37	1.43
7	Paid up Equity Share Capital	2,730.50	2,443.88	1,267.89	2,443.88
8	Other equity	-	-	-	90,822.64

Notes to the consolidated financial results:
1. The above consolidated results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 11th August 2025. The quarter results have been reviewed by the statutory auditors of the Company.

Embassy Developments Limited (Formerly Equinox India Developments Limited and earlier Indiabulls Real Estate Limited)					
Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June 2025					
Sl. No.	Particulars	₹ in millions			
		3 months ended 30 June 2025	Preceding 3 months ended 31 March 2025	Corresponding 3 months ended 30 June 2024	Previous year ended 31 March 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	1,188.45	5,885.68	8,228.64	21,123.57
2	Net (Loss) / Profit for the year/period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(903.69)	(221.51)	1,125.30	803.14
3	Net (Loss) / Profit for the year/period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(903.69)	(501.51)	1,125.30	523.14
4	Net (Loss) / Profit for the year/period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(888.04)	(472.89)	3,227.43	2,641.78
5	Total Comprehensive Income for the year/period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(888.04)	(2,137.62)	3,227.43	977.05
6	Earnings per Share (Face value of ₹ 2/- each)				
	- Basic (Amount in ₹)	(0.69)	(0.39)	5.09	2.16
	- Diluted (Amount in ₹)	(0.69)	(0.39)	3.62	1.84
7	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 2 per equity share)	2,730.50	2,443.88	1,267.89	2,443.88
8	Other equity	-	-	-	99,265.92

Notes to the standalone financial results:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 11th August 2025. The quarter results have been reviewed by the statutory auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://embassyindia.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: Office No. 01-1001, WeWork, Blue One Square, Udyog Vihar Phase 4 Rd, Gurugram, Haryana 122016
Corporate Identity Number (CIN) : L45101HR2006PLC095409

For and on behalf of the Board of Directors
Sachin Shah
CEO & Executive Director

Place: Mumbai
Date : 11 August 2025

ग्लोबस पॉवर जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में ग्लोबस कंस्ट्रक्चर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के नाम से विदित) सीआईएन : L40300RJ1985PLC047105, ईमेल : globuscdl@gmail.com, दूरभाष : 0141- 4025020 पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, भूखण्ड सं. 3, आम्नाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर- 302021, निगमित कार्यालय : ए- 60, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज- 1, नई दिल्ली- 110028				
30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश				
विवरण	समाप्त 3 माह	समाप्त पूर्ववर्ती 3 माह	समाप्त तदनुकूपी 3 माह	समाप्त वर्ष
	30-06-2025	31-03-2025	30-06-2024	31-03-2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
	पुनरीक्षित	लेखापरीक्षित	पुनरीक्षित	लेखापरीक्षित
परिचालनों से कुल आय	0.00	0.00	0.05	0.07
अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक मदों से पूर्व)	(13.79)	(9.61)	(16.04)	(48.40)
कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपर्रंत)	(3.98)	393.22	(16.34)	354.13
कर उपर्रंत अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपर्रंत)	(3.98)	393.22	(16.34)	354.13
वर्ष की कुल व्यापक आय (अवधि का लाभ / (हानि) (कर उपर्रंत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपर्रंत) से समाविष्ट)	(3.98)	372.66	(30.56)	284.07
समता अंश पूंजी (प्रदत्त) (अंश का अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक है)	9,894.85	9,894.85	9,894.85	9,894.85
आरक्षित (पूर्ववर्ती लेखापरीक्षण वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-पत्र के अनुसार पुनर्मूल्योक्त आरक्षितियों छोड़कर)	(9084.86)	(9080.87)	(9395.50)	(9080.87)
आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक की) (अवार्धिकृत)	(0.00)	0.38	(0.03)	0.29
क) मूलमूल ख) तरलीकृत	(0.00) (0.00)	0.38 0.38	(0.03) (0.03)	0.29 0.29

टिप्पणियाँ :
1) दिनोंक 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा निदेशक मंडल द्वारा 11 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उक्त परिणामों की समीक्षा की गई है।
2) उपरोक्त सारांश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम प्रतिक्रान (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालनान्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। इन परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.gpgl.in) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ग्लोबस पॉवर जनरेशन लिमिटेड
हस्ता./-
अमय खन्ना
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 02153655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11-08-2025

GOODYEAR GOODYEAR INDIA LIMITED CIN: L25111HR1961PLC008578				
REGISTERED OFFICE: MATHURA ROAD, BALLABGARH (DIST. FARIDABAD) - 121004, HARYANA Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in				
EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (₹. In Lakhs)				
Particulars	Current 3 months ended (30/06/2025)	Previous 3 months ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2025)
	(Unaudited)	(Unaudited) (Refer note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total income from operations	66,089	60,673	69,531	2,62,557
2. Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,896	681	3,345	7,468
3. Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,896	681	3,345	7,468
4. Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,411	487	2,503	5,512
5. Total Comprehensive income/(loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	1,386	450	2,524	5,610
6. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307
7. Earnings/(loss) Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised): (a) Basic (₹.) (b) Diluted (₹.)	6.12 6.12	2.11 2.11	10.85 10.85	23.90 23.90

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
2. The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.
3. The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".
4. The figures of last quarter of previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.
5. This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 11, 2025. The financials results for the quarter ended June 30, 2025 have also been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

For GOODYEAR INDIA LIMITED
Sd/-
Arvind Bhandari
Chairman and Managing Director

Place: Gurugram
Date: August 11, 2025

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)		Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.			
DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.					
Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagees have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non performing Asset , whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagees as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.					
Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagee	Loan Account No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) M/s. Batra Electrical & Home Appliances Represented by its Proprietor Mr. Sanjeev Batra, 2) Mr. Sanjeev Batra (Borrower), 3) Mr. Sunil Batra (Guarantor), 4) Mrs. Ranjana Batra (Guarantor)	Loan Account No. 45138640002708 4512020000866557 Loan Amount: Rs.76,39,176/- Rs.24,33,143/-	Details of Secured Assets: Part-'A': Hypothecated Moveable Assets: First Charge on all Raw materials and stock in the books of account and receivables and book debts of the business premises of the company i.e. M/s. Batra Electrical & Home Appliances , K-81, Basement, Lajpat Nagar-III, Delhi-110024. Part-'B': Mortgaged Immovable Property - Schedule Property - Property Details: Rear Half Portion of Ground Floor Measuring 100 Sq.yards of the said property along with proportionate undivided, indivisible and impartial ownership rights in land underneath the said part of building bearing No.D-145, situated at Lajpat Nagar, New Delhi with all rights title and interest, easements, privileges and appurtenances thereto, with super structure, electricity and water connections, fixtures and fitting etc., with all right in common entrance, passage, staircase and other common facilities and amenities provided Owned by Mr. Sanjeev Batra, S/o. Sh. Khatri Lal Batra.	Date of NPA: 01.08.2025 Demand Notice Date: 07.08.2025	Rs.93,53,671.49 (Rupees Ninety Three Lakh Fifty Three Thousand Six Hundred Seventy One and Forty Nine Paisa Only) as of 05-08-2025
2	1) Mr. Jyoti Singh (Applicant), 2) Mr. Ram Chandar (Co-Applicant), 3) Mrs. Rani (Guarantor)	Loan Account No. 45129430000557 Loan Amount: Rs.12,00,000/-	Details of Secured Assets: Mortgaged Immovable Property - Schedule Property: All that piece and parcel of the Immovable Property bearing Built up free hold property on Second Floor (Portion of Left Hand side), without its Roof/ Terrace Rights, Built on Land area Measuring 46 Sq.mtrs., A Part of Built up free hold property bearing Municipal No.4532-B, Pvt. No.D-3, situated at Arya Pura, Subzi Mandi, Delhi-110007. Owned by Mrs. Rani, W/o. Mr. Ram Chandar.	Date of NPA: 01.08.2025 Demand Notice Date: 07.08.2025	Rs.12,95,261.00 (Rupees Twelve Lakh Ninety Five Thousand Two Hundred and Sixty One Only) as of 04.08.2025
3	1) Mr. Kamruddin (Applicant), 2) Mrs. Shabnam (Co-Applicant)	Loan Account No. 30418240000406 Loan Amount: Rs.4,62,000/-	Details of Secured Assets: Mortgaged Immovable Property - Schedule Property: All that piece and parcel of the immovable property bearing a Plot Area Measuring 100 Sq.yards Waka Mauja Gonchi Village (Ander Abadi Laldora), Tehsil Ballabgarh, District Faridabad. Owned by Mrs. Shabnam, W/o. Mr. Kamruddin. Bounded as: East: Islam, West: Sarfaraz, North: Aam Rasta, South: Bheema.	Date of NPA: 01.08.2025 Demand Notice Date: 07.08.2025	Rs.3,85,610.00 (Rupees Three Lakh Eighty Five Thousand Six Hundred and Ten Only) as of 05-08-2025
Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagee as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.5, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagees of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.					
Date: 12.08.2025, Place: Delhi NCR		Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited			

SHYAM TELECOM LIMITED				
CIN : L32202RJ992PLC017750				
REGD. OFFICE: SHYAM HOUSE, 3, AMRAPALI CIRCLE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR - 302021, RAJASTHAN, INDIA				
Website : www.shyamtelecom.com				
Extracts of Reviewed Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2025				
(Rs. in Lakhs except per equity share capital data)				
S. No.	Particulars	Quarter Ended	Corresponding Quarter Ended	Year Ended
		30-06-2025	30-06-2024	31-03-2025
1	Total Income	3.57	4.14	13.86
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional Items	(394.72)	(43.45)	(173.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items	(394.72)	(43.45)	(173.87)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional Items	(394.58)	(43.45)	(183.75)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	(394.09)	(41.90)	(184.81)
6	Equity Share Capital	(1127.00)	(1127.00)	(1127.00)
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves)	(4,323)	(3786.10)	(3929.01)
8	Earning Per Share (EPS) of face value of Rs. 10/- each			
	(a) Basic	(3.50)	(0.37)	(1.64)
	(b) Diluted	(3.50)	(0.37)	(1.64)
Notes				
1. The Financial Result for the quarter ended 30 th June 2025 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 11 th August 2025. The said results has been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.				
2. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter ended 30 th June, 2025, filed with stock exchange pursuant to regulations 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of results, are available on the stock exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.shyamtelecom.com)				
For & on behalf of Board of Directors of SHYAM TELECOM LIMITED				
Sd/- Ajay Khanna Managing Director				
Place : New Delhi Date : 11.08.2025				

GOOD YEAR				
GOODYEAR INDIA LIMITED				
CIN: L25111HR1961PLC008578				
REGISTERED OFFICE: MATHURA ROAD, BALLABGARH (DIST. FARIDABAD) - 121004, HARYANA				
Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com , Website: www.goodyear.co.in				
EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (Rs. In Lakhs)				
Particulars	Current 3 months ended (30/06/2025)	Previous 3 months ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2025)
	(Unaudited)	(Unaudited) (Refer note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total income from operations	66,089	60,673	69,531	2,62,557
2. Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,896	681	3,345	7,468
3. Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,896	681	3,345	7,468
4. Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,411	487	2,503	5,512
5. Total Comprehensive Income/(loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	1,386	450	2,524	5,610
6. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307
7. Earnings/(Loss) Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):				
(a) Basic (Rs.)	6.12	2.11	10.85	23.90
(b) Diluted (Rs.)	6.12	2.11	10.85	23.90
Notes:				
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e. www.goodyear.co.in/investor-relations . The same can be accessed by scanning the QR code provided below.				
2. The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.				
3. The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".				
4. The figures of last quarter of previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.				
5. This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 11, 2025. The financials results for the quarter ended June 30, 2025 have also been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.				
For GOODYEAR INDIA LIMITED				
Sd/- Arvind Bhandari Chairman and Managing Director				
Place: Gurugram Date: August 11, 2025				

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED (Formerly Known as Globus Constructors & Developers Limited)				
CIN : L40300RJ1985PLC047105 E mail: globuscdl@gmail.com Ph.: 0141-4025020				
Regd. Off.: Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021				
Corp. Off.: A-60, Nariana Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110028				
Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2025				
Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended	Year Ended
	30-06-2025	31-03-2025	30-06-2024	31-03-2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Reviewed	Audited	Reviewed	Audited
Total Income from Operations	0.00	0.00	0.05	0.07
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(13.79)	(9.61)	(16.04)	(48.40)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(3.98)	393.22	(16.34)	354.13
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	(3.98)	393.22	(16.34)	354.13
Total Comprehensive Income for the year (comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.98)	372.66	(30.56)	284.07
Equity Share Capital (Paid up) (Face Value of the share Rs.10/-each)	9,894.85	9,894.85	9,894.85	9,894.85
Reserve (excluding Revaluation Reserves as per Audited Balance Sheet of previous accounting year)	(9084.86)	(9080.87)	(9395.50)	(9080.87)
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (not annualised)				
a) Basic	(0.00)	0.38	(0.03)	0.29
b) Diluted	(0.00)	0.38	(0.03)	0.29
Notes				
1. The Financial Results for the quarter ended 30th June 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 11th August 2025. The said results has been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.				
2. The above is an extract of the detailed format of the Financial results for the quarter ended 30 th June 2025 filed with stock exchange pursuant to regulations 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of these results, are available on the stock exchange website BSE www.bseindia.com and on Company's website www.gpgl.in .				
By Order of the board For Globus Power Generation Limited Sd/- Abhay Khanna Whole Time Director Din: 02153655				
Place : New Delhi Date : 11.08.2025				

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED						
CIN : L74899DL1930PLC000208,						
REGD. OFFICE : MGF HOUSE, 4 / 17B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI 110002.						
Email ID : mgfttd@hotmail.com , Website : http://www.mgfttd.com , Phone : 23272216-18						
Extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025 (₹ in Lakhs)						
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended
		30-06-2025	30-06-2024	31-03-2025	30-06-2025	30-06-2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations	236.33	244.36	992.74	236.33	244.36
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	24.74	32.89	118.55	24.74	32.89
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	24.74	32.89	118.55	23.01	31.11
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	24.74	32.89	118.55	23.01	31.11
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	24.74	32.89	124.60	23.01	31.11
6	Equity Share Capital	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year			3,441.41		3,040.07
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	a) Basic (₹)	0.06	0.08	0.31	0.06	0.08
	b) Diluted (₹)	0.06	0.08	0.31	0.06	0.08
Notes:-						
1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30th June, 2025, Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchanges website at www.nseindia.com , www.bseindia.com and on the Company's website at www.mgfttd.com .						
2. The above standalone and consolidated unaudited financial results have been approved by the Audit Committee at their meeting held on Monday, the 11th August, 2025 and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on Monday, the 11th August, 2025.						
3. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.						
4. Previous year/ periods figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.						
FOR THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED Sd/- (RAJIV GUPTA) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER DIN : 00022964						
Place: New Delhi Date: 11th August, 2025						

HDFC BANK		HDFC Bank Limited			
Branch : The Capital Court, Munirka, Olof Palme Marg, Outer Ring Road, New Delhi-110 067					
Tel. : 011-41596568, CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com					
POSESSION NOTICE					
Whereas the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC), under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Mortgagee(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice(s), incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.					
Sr. No.	Name of Borrower(s)	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property / Secured Asset
1.	MR. RAJIV PARKASH GUPTA, MR. HIMANSHU GUPTA, MR. ABHISHEK GUPTA, MRS. SUDHA GUPTA & M/S SINGHAL CABLE INDIA	Rs. 31,32,173/- (RUPEES THIRTY ONE LAKH THIRTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY THREE ONLY) Due as on 30-NOV-2024	30-DEC-2024	08-Aug-2025 (Symbolic Possession)	RESIDENTIAL FLAT NO. U1-0303, BLOCK NO. U1, 3RD FLOOR, "KINGSBURY FLAT COMPLEX" AT "TDI CITY KUNDLI" INTERGATED TOWNSHIP SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE KUNDLI, SECTOR 58 & 61, NANGAL KALAN, ATERNA, PATLA, RASOI, BADKHALSA AND JAKHOLI AND SERSA SITUATED WITHIN THE TEHSIL RAJ, SONIPAT, HARYANA WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
2.	MR. ARUNABH MOHAN SRIVASTAVA & MRS. RAKHI SRIVASTAVA	Rs. 27,56,322/- (RUPEES TWENTY SEVEN LAKH FIFTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY TWO ONLY) Due as on 31-MAR-2025	25-APR-2025	08-Aug-2025 (Symbolic Possession)	FLAT NO. S1-202, 2ND FLOOR, BLOCK NO. S1, "KINGSBURY FLAT COMPLEX" AT "TDI CITY KUNDLI", INTEGRATED TOWNSHIP SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE KUNDLI, NANGAL KALAN, ATERNA, PATLA, RASOI, BADKHALSA AND JAKHOLI AND SERSA SITUATED WITHIN THE TEHSIL RAJ, DISTRICT SONEPAT, HARYANA ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.					
However, since the Borrower(s) mentioned hereinabove has failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrower(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC has taken Symbolic Possession of Immovable Property / Secured Asset mentioned at serial no. 1 to 2 exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.					
The Borrower(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid immovable properties / secured assets and any dealings with the said Immovable Property / Secured Asset will be subject to the mortgage of HDFC.					
Borrower(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchanama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) is/are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.					
Place: SONIPAT-HARYANA Date : 11-Aug-2025					
For HDFC Bank Ltd. Sd/- Authorised Officer					
Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013					